

स्वास्थ्य प्रीमियम

प्रस्ताव प्रपत्र

यूआरएन: 008

1. प्रस्तावक विवरण:

उपाधि नाम

जन्म तिथि लिंग: पुरुष मादा राष्ट्रीयता

वर्तमान पता

सीमा चिन्ह शहर

जिला राज्य व्यक्तिगत पहचान संख्या

लैंडलाइन नंबर मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी वैकल्पिक संख्या

सीकेवाईसी नंबर (वैकल्पिक): पैन नंबर

वार्षिक आय (₹)

प्रयोग वैतनिक स्वनियोजित छात्र गृहस्वामिनी अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें

द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम प्रस्तावक के साथ संबंध

मैंने सभी नियमों और शर्तों को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है और इसके द्वारा निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस या उसके किसी भी एजेंट और/या तीसरे पक्ष/सहयोगी को क्लेम/एएसएमएस/ईमेल/फोन/फेसबुक या मेरे पंजीकृत फोन नंबर पर किसी अन्य मोड के माध्यम से मुझसे संपर्क करने के लिए अधिकृत किया है, जो स्वागत कॉल/एएसएमएस, सेवा कॉल/एएसएमएस या कोई अन्य वाणिज्यिक संचार करने के लिए मेरे 'डीएनडी' पंजीकरण को ओवरराइड करता है

क्या आप या प्रस्तावित आवेदकों में से कोई पीईपी # है? हाँ नहीं
 #Politically एक्सपोज़्ड पर्सन्स (पीईपी) वे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रमुख सार्वजनिक कार्यों जैसे केंद्र या राज्य सरकार के प्रमुख / मंत्री, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, पार्टी के महत्वपूर्ण अधिकारी सौंपे गए हैं या सौंपे गए हैं। (यदि आपने पीईपी के खिलाफ टिक किया है, तो कृपया अलग पीईपी प्रश्नावली भरें)

क्या आप पॉलिसी किट की भौतिक प्रति चाहते हैं? हाँ नहीं

बैंक विवरण:

बैंक का नाम

खाता संख्या आईएफएससी कोड

खाता प्रकार बचत प्रवाह शाखा शहर

इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाते (ईआईए) का विवरण

क्या आप इस पॉलिसी को ई-बीमा खाते में जमा करवाना चाहते हैं? (कृपया किसी एक का चयन करें)

नहीं, मेरे पास ई-बीमा खाता नहीं है और मैं इसे खोलना नहीं चाहता हाँ, इस पॉलिसी को मेरे ई-बीमा खाते में जमा करें

यदि हां, तो कृपया मौजूदा ई-बीमा खाता संख्या साझा करें।

कृपया बीमा रिपोज़िटरी नाम चुनें (आपने अपना खाता खोला है)

1. एनएसडीएल 2. सीआईआरएल 3. कार्वी 4. कैम्स (कृपया किसी एक का चयन करें)

नहीं तो

मेरे पास मौजूदा ई-बीमा खाता नहीं है और मुझे एक नया ई-बीमा खाता बनाने में दिलचस्पी है

(कृपया संबंधित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाता खोलने का फॉर्म (ईआईए फॉर्म) जमा करें)।

2. बीमा के लिए आवेदकों का विवरण:

आवेदक 1

नाम

लिंग पुरुष मादा दूसरा पराकाष्ठा (एचयूएफ) (ईच) वजन (किग्रा)

कमर (ईच) जन्म तिथि मोबाइल नंबर

कृपया टिक करें यदि भारतीय नहीं है पासपोर्ट नंबर

प्रस्तावक से संबंध (कृपया विकल्प पर टिक करें):
स्वयं/जीवनसाथी/पुत्र/बहू/बेटी/दामाद/पिता/माता/ससुर/सास/दादा/दादी/पोता/पोती/भाई/बहन/भाभी/बहनोई/भतीजा/भतीजी/नियोक्ता-कर्मचारी

आवेदक 2

नाम

लिंग पुरुष मादा दूसरा पराकाष्ठा (एचयूएफ) (ईच) वजन (किग्रा)

कमर (ईच) जन्म तिथि मोबाइल नंबर

कृपया टिक करें यदि भारतीय नहीं है पासपोर्ट नंबर

प्रस्तावक से संबंध (कृपया विकल्प पर टिक करें):
स्वयं/जीवनसाथी/पुत्र/बहू/बेटी/दामाद/पिता/माता/ससुर/सास/दादा/दादी/पोता/पोती/भाई/बहन/भाभी/बहनोई/भतीजा/भतीजी/नियोक्ता-कर्मचारी

आवेदक 3

नाम

लिंग पुरुष मादा दूसरा पराकाष्ठा (एचयूएफ) (ईच) वजन (किग्रा)

कमर (ईच) जन्म तिथि मोबाइल नंबर

कृपया टिक करें यदि भारतीय नहीं है पासपोर्ट नंबर

प्रस्तावक से संबंध (कृपया विकल्प पर टिक करें):
स्वयं/जीवनसाथी/पुत्र/बहू/बेटी/दामाद/पिता/माता/ससुर/सास/दादा/दादी/पोता/पोती/भाई/बहन/भाभी/बहनोई/भतीजा/भतीजी/नियोक्ता-कर्मचारी

आवेदक 4

नाम

लिंग पुरुष मादा दूसरा पराकाष्ठा (एचयूएफ) (ईच) वजन (किग्रा)

कमर (ईच) जन्म तिथि मोबाइल नंबर

कृपया टिक करें यदि भारतीय नहीं है पासपोर्ट नंबर

प्रस्तावक से संबंध (कृपया विकल्प पर टिक करें):
स्वयं/जीवनसाथी/पुत्र/बहू/बेटी/दामाद/पिता/माता/ससुर/सास/दादा/दादी/पोता/पोती/भाई/बहन/भाभी/बहनोई/भतीजा/भतीजी/नियोक्ता-कर्मचारी

आवेदक 5

नाम

लिंग पुरुष मादा दूसरा पराकाष्ठा (एचयूएफ) (ईच) वजन (किग्रा)

कमर (ईच) जन्म तिथि मोबाइल नंबर

कृपया टिक करें यदि भारतीय नहीं है पासपोर्ट नंबर

प्रस्तावक से संबंध (कृपया विकल्प पर टिक करें):
स्वयं/जीवनसाथी/पुत्र/बहू/बेटी/दामाद/पिता/माता/ससुर/सास/दादा/दादी/पोता/पोती/भाई/बहन/भाभी/बहनोई/भतीजा/भतीजी/नियोक्ता-कर्मचारी

आवेदक 6

नाम

लिंग पुरुष मादा दूसरा पराकाष्ठा (एचयूएफ) (ईच) वजन (किग्रा)

कमर (ईच) जन्म तिथि मोबाइल नंबर

कृपया टिक करें यदि भारतीय नहीं है पासपोर्ट नंबर

प्रस्तावक से संबंध (कृपया विकल्प पर टिक करें):
स्वयं/जीवनसाथी/पुत्र/बहू/बेटी/दामाद/पिता/माता/ससुर/सास/दादा/दादी/पोता/पोती/भाई/बहन/भाभी/बहनोई/भतीजा/भतीजी/नियोक्ता-कर्मचारी

3. कवरेज चयन:

क्या आप पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन कर रहे हैं: हाँ नहीं (यदि हाँ, तो कृपया अलग पोर्टेबिलिटी फॉर्म भी भरे।)

कृपया संबंधित बॉक्स पर टिक करें:

आधार कवरेज:

पॉलिसी का प्रकार: व्यक्ति फैमिली प्लान परिवार पहले प्लान का प्रकार: चाँदी जैसा सोना प्लैटिनम

प्रीमियम भुगतान मोड: अकेला

कवर किए जाने वाले जीवन की संख्या: वयस्कों बच्चे

बेस सम इश्योर्ड

फैमिली फर्स्ट पॉलिसी प्रकार के मामले में प्लानर सम इश्योर्ड सदस्यों की संख्या (6 से अधिक सदस्यों के लिए 10 माना जाना चाहिए) * बेस सम इश्योर्ड * मल्टीप्लायर फैक्टर (2 सदस्य पॉलिसी के लिए 1.5 और दूसरों के लिए 1)

चुने गए कमरे का किराया (केवल फैमिली फर्स्ट सिल्वर वेरिएंट के लिए लागू) 3,000 रुपये प्रति दिन या साझा कमरा; जो भी कम हो

5,000 रुपये प्रति दिन या एकल निजी कमरा; जो भी कम हो

पॉलिसी कवरेज: जोन 1: ऑल इंडिया कवरेज

जोन 2: मुंबई (नवी मुंबई और ठाणे सहित), दिल्ली एनसीआर, कोलकाता और गुजरात राज्य के लिए लागू सह-भुगतान के साथ अखिल भारतीय कवरेज

(नोट - यदि आप जोन 2 का चयन करते हैं, तो मुंबई (नवी मुंबई और ठाणे सहित), दिल्ली एनसीआर, कोलकाता और गुजरात राज्य में उपचार के लिए 20% सह-भुगतान लागू होगा।)

पॉलिसी अवधि: 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष

वैकल्पिक कवरेज:		कृपया ऑफ करने के लिए टिक करें					
1.	बढ़ी हुई लॉयल्टी एडिशन	<input type="checkbox"/>	हाँ	<input type="checkbox"/>	नहीं		
2.	हॉस्पिटल कैश	<input type="checkbox"/>	हाँ	<input type="checkbox"/>	नहीं		
3.	अंतर्राष्ट्रीय कवरेज, मातृत्व लाभ और निर्दिष्ट बीमारी के लिए बढ़ी हुई भौगोलिक गुंजाइश (केवल प्लैटिनम प्लान के लिए लागू)	<input type="checkbox"/>	हाँ	<input type="checkbox"/>	नहीं		
4.	'अंतर्राष्ट्रीय कवरेज' के लिए अपनी बीमा राशि को दोगुना करें (केवल प्लैटिनम प्लान के लिए लागू)	<input type="checkbox"/>	हाँ	<input type="checkbox"/>	नहीं		
		आवेदक संख्या					
		1	2	3	4	5	6
5.	कृपया 'पर्सनल एक्सीडेंट कवर' चुनते समय टिक करें (यह विकल्प केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एप्लीकेंट के लिए उपलब्ध है). - यदि 'व्यक्तिगत दुर्घटना कवर' चुना जाता है, तो कृपया टिक करें यदि आवेदक किसी नौकरी या व्यवसाय में शामिल है जो किसी विमान या समुद्र में जाने वाले जहाज, भूमिगत खनन या टनलिंग, सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों में कर्मचारी के रूप में काम करने से संबंधित है, किसी भी साहसिक खेल (मोटर गति प्रतियोगिता सहित) में भाग ले रहा है।						
6.	कृपया 'क्रिटिकल इलनेस कवर' का विकल्प चुनते समय टिक करें (यह विकल्प केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एप्लीकेंट के लिए उपलब्ध है) चुनी गई कवरेज राशि है <input type="checkbox"/> - यदि 'क्रिटिकल इलनेस कवर' चुना जाता है, तो कृपया सही चेक करें कि क्या आवेदक का निदान किया गया है या किसी भी पुरानी स्थिति के लिए उपचार चल रहा है जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे, यकृत, अग्राशय, प्लीहा, आंतों, रक्त वाहिकाओं, हड्डियों/जोड़ों या मामूली चिकित्सा बीमारी के अलावा शरीर के किसी अन्य अंग को प्रभावित करता है।						
7.	स्वास्थ्य कोच कवरेज का चयन करने की स्थिति में, मैं सहमत हूँ कि कंपनी लाभ के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदक से संपर्क करने के लिए सेवा प्रदाता को आवेदक के प्रासंगिक विवरण प्रदान कर सकती है। मैं आगे सहमत हूँ और सहमति देता हूँ कि कंपनी और सेवा प्रदाता द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन पर ट्रैकिंग विवरण की आवश्यकता है। मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से और बिना किसी दबाव के घोषणा और सहमति देता हूँ कि कंपनी और उसके अधिकृत सेवा प्रदाता समय-समय पर इन विवरणों तक पहुंच सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं।						
8.	रक्षा करना	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>	रक्षा करना	<input type="checkbox"/>	रक्षोपायक+

4. नामांकन

प्रस्तावक की मृत्यु की स्थिति में, पॉलिसी के तहत देय कोई भी भुगतान नीचे नामित नामांकित व्यक्ति को देय हो जाएगा। नामांकित व्यक्ति द्वारा इस तरह के भुगतान की प्राप्ति पॉलिसी के तहत कंपनी की देयता का निर्वहन करेगी। अन्य सभी आवेदक(ओं) के लिए नामिती स्वयं प्रस्तावक होगा।

नामिनी का नाम	जन्म तिथि	प्रस्तावक के साथ संबंध	नामिनी का पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी	नियुक्त व्यक्ति का नाम (यदि नामांकित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है)

नामांकित व्यक्ति का बैंक विवरण: लाभार्थी का नाम:

बैंक का नाम				खाता प्रकार	<input type="checkbox"/> बचत	<input type="checkbox"/> प्रवाह
खाता संख्या				आईएफएससी कोड		

5. चिकित्सा और आदतों की जानकारी

महत्वपूर्ण: कृपया सुनिश्चित करें कि इस खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर सच्चाई से और पूरी तरह से दिया गया है क्योंकि आपके द्वारा यहां प्रदान की गई जानकारी निवा बूपा द्वारा हामीदारी का आधार बनेगी। कृपया ध्यान दें कि कोई भी अपूर्ण, गलत, आंशिक रूप से सही जानकारी आपके दावे और/या कवरेज को प्रभावित कर सकती है।

खंड ए: कृपया चिकित्सा स्थितियों के बारे में जानकारी साझा करें	आवेदक संख्या					
	1	2	3	4	5	6
कृपया प्रत्येक आवेदक के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कृपया हाँ (Y) या नहीं (N) सर्कल करें						
i. क्या आपको कभी 5 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, किसी भी सर्जिकल प्रक्रियाओं से गुजरने की सलाह दी गई है, या 14 दिनों से अधिक समय तक कोई दवा ली गई है / कोई लक्षण थे? दवा शामिल है, लेकिन इनहेलर, इंजेक्शन, मौखिक दवाओं और सामयिक अनुप्रयोगों तक सीमित नहीं	और N	और N	और N	और N	और N	और N
ii. क्या आपके पास कभी भी किसी नैदानिक परीक्षण या जांच के प्रतिकूल निष्कर्ष हैं जैसे कि	और N	और N	और N	और N	और N	और N
iii. क्या आपको मधुमेह या उच्च रक्तचाप है?	और N	और N	और N	और N	और N	और N
iv. क्या आपको पहले से कोई बीमारी / स्थिति है?	और N	और N	और N	और N	और N	और N
v. क्या आपको कभी भी किसी आनुवंशिक / वंशानुगत विकार या एचआईवी / एड्स के लिए निदान या उपचार किया गया है?	और N	और N	और N	और N	और N	और N
vi. क्या आपको कभी भी किसी मानसिक / मानसिक विकारों के लिए निदान या इलाज किया गया है?	और N	और N	और N	और N	और N	और N
vii. क्या आप वर्तमान में गर्भवती हैं और/या वर्तमान या पहले के गर्भधारण में कोई जटिलता है या किसी भी प्रकार के प्रजनन उपचार से गुजर रही हैं? (18 से 50 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं के लिए लागू)	और N	और N	और N	और N	और N	और N

खंड बी: (कृपया इस अनुभाग को केवल तभी भरें जब आवेदक धूम्रपान करता है या तंबाकू/गुटखा/पान मसाला या शराब का सेवन करता है)	i. चबाने योग्य तंबाकू/गुटखा/पान मसाला - यदि हां, तो कृपया प्रति दिन पाउच की संख्या निर्दिष्ट करें		ii. शराब। यदि हाँ, तो कृपया प्रति सप्ताह एमएल निर्दिष्ट करें		iii. सिगरेट/बीड़ी/सिगार। यदि हाँ, तो कृपया प्रति दिन खपत निर्दिष्ट करें	
	1-10	>10	<= 450	>450	1-10	>10
आवेदक 1						
आवेदक 2						
आवेदक 3						
आवेदक 4						
आवेदक 5						
आवेदक 6						

11. प्रीमियम विवरण (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

प्रीमियम भुगतान विकल्प दायक मांग ड्राफ्ट
 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग
 नकद दूसरों

प्रीमियम राशि

ऑनलाइन भुगतान वेबसाइट आईडी:

खजूर D लाख लाख और और और और

निवा बूपा शाखा स्थान

कोड नं.

व्यापार द्वारा स्रोत:
सलाहकार/डीएसटी/कॉर्पोरेट एजेंसी/अन्य चैनल

कूट संख्या

नाम

पर प्राप्त प्रस्ताव: D लाख लाख और और और और

कस्टमर आईडी:

12. केवल Bancassurance चैनल के लिए अतिरिक्त विवरण (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

शाखा कोड एसपी कोड

आरएम/एलजी कोड

ग्राहक खाता संख्या

13. बीमा सलाहकार की रिपोर्ट (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

1. क्या आप प्रस्तावक से संबंधित हैं? हाँ/नहीं; यदि हाँ, तो संबंधों की प्रकृति?

2. प्रस्तावक को कितने समय से जानते हैं?

3. क्या आप प्रस्तावक की पहचान से संतुष्ट हैं? हाँ नहीं

4. क्या प्रस्तावक या किसी आवेदक को कोई शारीरिक विकृति/दोष या मानसिक मंदता है? हाँ नहीं

5. क्या आपने प्रस्तावित पॉलिसी की शर्तों, नवीनीकरण की शर्तों, बहिष्करण, पॉलिसी की प्रतीक्षा अवधि की व्याख्या की है और क्या प्रस्तावक ने व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य घोषणा पूरी की है? हाँ नहीं

6. क्या आप नैतिक जोखिम सहित सभी कारकों पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव फॉर्म को स्वीकार करने की सलाह देते हैं? हाँ नहीं

7. क्या आपने निष्पक्ष रूप से प्रस्तावक को सलाह दी है और सभी जानकारी प्रदान की है ताकि प्रस्तावक सर्वोत्तम कवर में निर्णय ले सके जो उसके हित में होगा? हाँ नहीं

खजूर D लाख लाख और और और और

बीमा सलाहकार के हस्ताक्षर

14. वैधानिक चेतावनी

छूट का निषेध (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के तहत)

- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन के पूरे या हिस्से की कोई छूट या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम की कोई छूट की अनुमति या अनुमति नहीं देगा, न ही कोई व्यक्ति पॉलिसी लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी छूट को स्वीकार करेगा, सिवाय इस तरह की छूट के जो बीमाकर्ता के प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या तालिकाओं के अनुसार अनुमति दी जा सकती है।
- इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा जो दस लाख रुपये तक का हो सकता है।

15. आभा आईडी

सदस्य का नाम	क्या आपके पास आभा आईडी है?		आभा आईडी	ABHA के माध्यम से बीमाकर्ताओं/TPA के साथ मेडिकल रिकॉर्ड साझा करने की	
	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं		<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16. दावों की वापसी और भुगतान के लिए विवरण

भुगतान प्राप्त करने का विकल्प: बैंक ट्रांसफर

लाभार्थी का नाम

बैंक का नाम

खाता संख्या आईएफएससी कोड

खाता प्रकार

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:- सी -98, पहली मंजिल, लाजपत नगर, भाग 1, नई दिल्ली -110024

अस्वीकरण: बीमा याचना का विषय है। निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे पहले मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 145)। 'बूपा' और 'हार्टबीट' लोगो उनके संबंधित स्वामियों के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं और लाइसेंस के तहत निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। ग्राहक हेल्पलाइन: 1860-500-8888 वेबसाइट: www.nivabupa.com | सीआईएन: U66000DL2008PLC182918 | नियम और शर्तों, बहिष्करण, जोखिम कारकों, प्रतीक्षा अवधि और लाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री समाप्त करने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें।

उत्पाद का नाम: स्वास्थ्य प्रीमिया, उत्पाद यूआईएन: MAXHLIP21176V022021 | ऐड-ऑन नाम: रक्षोपाय, ऐड-ऑन UIN: NBHHLIA24109V022324

मुख्य सुविधा दस्तावेज़ (KFD) -

स्वास्थ्य प्रीमियम

Niva Bupa अपने ग्राहकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी होने के लिए समर्पित है। यह दस्तावेज़ आपकी पॉलिसी की प्रमुख विशेषताओं को सारांशित करता है, हालांकि यह आपके पॉलिसी अनुबंध को प्रतिस्थापित नहीं करता है और हम आपको इस उत्पाद की खरीद समाप्त करने से पहले अपनी पॉलिसी के सभी विवरणों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

'हेल्थ प्रेमिया' आपको इनपेशेंट लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसके अलावा, गोल्ड और प्लैटिनम प्लान (जो नीचे उल्लिखित हैं) के तहत कुछ अतिरिक्त लाभ हैं और साथ ही यदि आप अपने कवर को बढ़ाना चाहते हैं तो खरीदने के लिए वैकल्पिक लाभ भी हैं।

आपकी पॉलिसी में निर्दिष्ट कुछ सीमाओं और बहिष्करणों के अधीन निम्नलिखित आधार लाभ प्रदान किए जाते हैं: सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम प्लान के तहत बेस लाभ

- अस्पताल में इनपेशेंट देखभाल, जिसमें कमरे का किराया (आपकी चुनी गई योजना के अनुसार) और आईसीयू शुल्क शामिल हैं
- क्रमशः 90 और 180 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च
- डे केयर उपचार
- अधिवास अस्पताल में भर्ती
- वैकल्पिक उपचार
- लिविंग ऑर्गेन डोनर ट्रांसप्लांट
- आपातकालीन एम्बुलेंस
- असीमित टेली/ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श
- मातृत्व लाभ 24 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद 2 गर्भधारण या समाप्ति के लिए कवर किया जाता है; प्लैटिनम योजना के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को छोड़कर दुनिया भर में कवर किया गया।
- नवजात शिशु (नवजात शिशु के टीकाकरण सहित)
- स्वास्थ्य जांच, पहले दिन से शुरू
- बेस सम इंड्योर्ड तक रिफिल बेनिफिट केवल व्यक्तिगत और फैमिली प्लान के तहत उपलब्ध है। फैमिली फर्स्ट प्लान में रिफिल बेनिफिट नहीं है।
- 1 वर्ष के लिए स्वचालित निःशुल्क विस्तार यदि पॉलिसीधारक (जो एक बीमित व्यक्ति भी होना चाहिए) की मृत्यु हो जाती है या निदान किया जाता है या पॉलिसी के दौरान किसी भी निर्दिष्ट बीमारी के साथ पहली बार उपचार किया जाता है (व्यक्तिगत कवर के लिए उपलब्ध नहीं)
- फार्मसी और डायग्नोस्टिक बुकिंग सेवाएं
- लॉयल्टी एडिशन: पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद, समाप्त होने वाली आधार बीमा राशि का 10% जोड़ना, आधार बीमा राशि के अधिकतम 100% के अधीन
- चिकित्सा रेफरल, आपातकालीन चिकित्सा निकासी, चिकित्सा प्रत्यावर्तन, अनुकंपा यात्रा, नाबालिग बच्चों की देखभाल और/या परिवहन और नश्वर अवशेषों की वापसी के लिए आपातकालीन सहायता सेवाएं
- एचआईवी/एड्स के कारण या उससे जुड़ी स्थिति के कारण अस्पताल में भर्ती होने (डे केयर उपचार सहित) के लिए किए गए खर्च पॉलिसी में निर्दिष्ट उप-सीमा के अधीन पॉलिसी के तहत कवर किए जाते हैं।
- मानसिक बीमारी के लिए इनपेशेंट उपचार के लिए किए गए खर्च पॉलिसी में निर्दिष्ट विशिष्ट शर्तों के लिए उप-सीमा के अधीन पॉलिसी के तहत कवर किए जाते हैं।
- आधुनिक उपचार कवर, सीमाओं के अधीन

गोल्ड और प्लैटिनम प्लान के तहत अतिरिक्त बेस बेनिफिट्स

- लेजर सर्जरी को पॉलिसी में निर्दिष्ट उप-सीमा के अधीन कवर किया जाता है।
- आपातकालीन अस्पताल में भर्ती, आपातकालीन चिकित्सा निकासी, ओपीडी कवर (20% के सह-भुगतान के साथ), अनुकंपा यात्रा, पासपोर्ट की हानि, नाबालिग बच्चों की देखभाल और/या परिवहन, चेक-इन सामान की हानि, नश्वर अवशेषों की वापसी, यात्रा रद्द और रुकावट, यात्रा में देरी, चेक-इन सामान की देरी, मेडिकल रेफरल और चिकित्सा प्रत्यावर्तन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को छोड़कर भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय कवरेज; नीति में निर्दिष्ट उप-सीमाओं के अधीन। - गोल्ड प्लान के तहत प्रति व्यक्ति अधिकतम 15 दिनों के लिए एक सिंगल ट्रिप कवर की जाती है। - वार्षिक मल्टी ट्रिप प्लैटिनम प्लान के तहत एक ही ट्रिप में अधिकतम 45 दिनों के लिए कवर की जाती है।

प्लेटिनम योजना के तहत अतिरिक्त आधार लाभ

- दूसरी चिकित्सा राय (दुनिया भर में) निर्दिष्ट बीमारी या नियोजित सर्जरी के निदान पर
- बाल देखभाल लाभ (टीकाकरण के लिए यात्रा के दौरान पोषण और विकास के लिए एक परामर्श सहित 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण)
- संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को छोड़कर भारत के बाहर निर्दिष्ट बीमारी कवर
- बिना किसी सह-भुगतान के ओपीडी उपचार और नैदानिक सेवाएं

निम्नलिखित वैकल्पिक लाभ आपकी पॉलिसी में निर्दिष्ट कुछ सीमाओं और बहिष्करणों के अधीन प्रदान किए जाते हैं:

- आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल और आंशिक विकलांगता के खिलाफ व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज
- 20 प्रमुख गंभीर बीमारियों के लिए क्रिटिकल इलनेस कवरेज
- अस्पताल में भर्ती होने के मामले में दैनिक अस्पताल नकद लाभ
- नवीनीकरण पर समाप्त होने वाली आधार बीमा राशि के 20% का बढ़ाया गया लॉयल्टी एडिशन, आधार बीमित राशि के अधिकतम 200% के अधीन।
- अंतर्राष्ट्रीय कवरेज विस्तार - अंतर्राष्ट्रीय कवरेज बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए विकल्प उपलब्ध हैं:
 - - अतिरिक्त यात्राएं एकल यात्रा के आधार पर उपलब्ध हैं, केवल गोल्ड प्लान के तहत 1 दिन से 30 दिन तक
 - - 'अंतर्राष्ट्रीय कवरेज' लाभ के लिए बीमित राशि दोगुनी हो सकती है
- प्लेटिनम योजना और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज आधार लाभ के तहत मातृत्व लाभ और निर्दिष्ट बीमारी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को कवर प्रदान करने के लिए बढ़ी हुई भौगोलिक गुंजाइश
- पॉलिसी वर्ष के अनुसार किसी भी 90 दिनों के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति के लिए निजीकृत स्वास्थ्य कोच

कृपया ध्यान दें कि वैकल्पिक लाभों के लिए अतिरिक्त वार्षिक प्रीमियम लिया जाता है

ध्यान दें कि प्रतीक्षा अवधि पॉलिसी के अनुसार लागू होती है:

- पॉलिसी की शुरुआत के बाद से 24 महीने की पहले से मौजूद बीमारी प्रतीक्षा अवधि और निरंतर नवीनीकरण के अधीन।
30 दिनों की प्रारंभिक प्रतीक्षा अवधि जब तक कि आवश्यक उपचार दुर्घटना का परिणाम न हो।
- कुछ सूचीबद्ध बीमारियों के लिए 12 महीनों की विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि, जब तक कि स्थिति सीधे कैंसर (30 दिनों की प्रारंभिक प्रतीक्षा अवधि के बाद कवर) या दुर्घटना (1 दिन से कवर) के कारण न हो।
- पॉलिसी की शुरुआत के बाद से निम्नलिखित लाभों की प्रतीक्षा अवधि 36 महीने होगी और निरंतर नवीनीकरण के अधीन होगा:
 - मानसिक विकार उपचार
 - लेजर सर्जरी कवर
- एचआईवी/एड्स कवर के लिए, पॉलिसी की शुरुआत के बाद से 48 महीने की प्रतीक्षा अवधि होगी और निरंतर नवीनीकरण के अधीन होगा।
- क्रिटिकल इलनेस कवर के लिए, सभी स्थितियों के लिए 90 दिनों की प्रारंभिक प्रतीक्षा अवधि के साथ-साथ 3 साल की पहले से मौजूद बीमारी की प्रतीक्षा अवधि और 30 दिनों की उत्तरजीविता अवधि बहिष्करण लागू होगी।

ध्यान दें कि मानक बहिष्करण नीति अनुबंध में निर्धारित अनुसार लागू होते हैं। इसके अलावा, अंडरराइटिंग परिणामों के आधार पर, कुछ विशिष्ट बहिष्करण या व्यक्तिगत प्रतीक्षा अवधि भी आपकी पॉलिसी पर लागू हो सकती हैं।

यह स्थान जानबूझकर खाली छोड़ा गया है।

आपकी पॉलिसी की अन्य प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- व्यक्तिगत या फैमिली फ्लोर कवर (4 बच्चों तक) या फैमिली फर्स्ट कवर (19 रिश्तों तक), पॉलिसी में सदस्य (सदस्यों) को जोड़ने या हटाने के साथ केवल नवीनीकरण के समय ही किया जाता है।
- सम इश्योर्ड (फैमिली फर्स्ट के मामले में): आपकी प्लान एक ही पॉलिसी में व्यक्तिगत सम इश्योर्ड और फ्लोर सम इश्योर्ड दोनों प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, फैमिली फर्स्ट पॉलिसी 6 सदस्यों (स्वयं, पति/पत्नी, माता-पिता और दो बच्चों के लिए) के लिए चुनी जाती है, जिसमें 5 लाख + 30 लाख की बीमा राशि होती है। कोई भी सदस्य अपनी व्यक्तिगत बीमा राशि से 5 लाख तक का दावा कर सकता है। 5 लाख से अधिक का कोई भी दावा 30 लाख के फ्लोर बीमा राशि के माध्यम से कवर किया जाएगा। इसलिए, एक व्यक्तिगत सदस्य एक दावे में 35 लाख तक का दावा कर सकता है, हालांकि फ्लोर बीमा राशि का उपयोग पॉलिसी वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए केवल 30 लाख तक किया जा सकता है। एक पॉलिसी वर्ष में संचयी आधार पर, कुल दावे 60 लाख (यानी 6 सदस्य * 5 लाख प्रत्येक + 30 लाख फ्लोर बीमा राशि) किए जा सकते
- आपकी पॉलिसी की आजीवन नवीनीकरणीयता आपकी पुष्टि और देय प्रीमियम के समय पर भुगतान के अधीन है
- जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका रिन्यूअल प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन आपके क्लेम अनुभव के आधार पर इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उत्पाद के लिए नवीकरण प्रीमियम दरों को भविष्य में आईआरडीआई अनुमोदन के अधीन और समय-समय पर लागू आईआरडीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार संशोधित किया जा सकता
- अगर आपका प्रस्ताव जारी करने के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आप प्री पॉलिसी मेडिकल चेक-अप (पीपीएमसी) की लागत के लिए खर्च की गई लागत का 100% वहन करेंगे।
- प्री लुक प्रावधान: यदि आप पॉलिसी के नियमों और शर्तों से सहमत नहीं हैं, तो आप पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपने कारणों को बताते हुए पॉलिसी रद्द कर सकते हैं, बशर्ते किसी भी लाभ के तहत कोई दावा नहीं किया गया हो। कवर अवधि के लिए मेडिकल चेक-अप, स्टॉप लूट और आनुपातिक जोखिम प्रीमियम के लिए शुल्क काटने के बाद प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। पॉलिसी के नवीनीकरण के समय प्री लुक प्रावधान लागू नहीं होता

नोट्स:

- प्रीमियम: कृपया मैक्स बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम पर भुगतान के सुरक्षित मोड के माध्यम से प्रीमियम राशि जमा करें।
 - किसी भी प्रश्न या क्लेम के मामले में, कृपया हमारे कस्टमर हेल्पलाइन नंबर: 1860-500-8888 पर संपर्क करें
- _____ मैं समय-समय पर कंपनी की प्रस्तावित या मौजूदा नीति के संबंध में स्वागत कॉल, सेवा कॉल या किसी अन्य संचार (इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा) करने के लिए कंपनी को अधिकृत करता हूँ और अधिकृत करता हूँ।

नवीनीकरण भुगतान साइन-अप

आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नवीकरण प्रीमियम का भुगतान कंपनी के साथ आपके मौजूदा ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (ACH)/स्थायी अनुदेशों (SI) को जारी रखकर हर साल किया जा सकता है। इस विकल्प के तहत, आपकी पॉलिसी को तुरंत नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन कंपनी द्वारा आवश्यक जानकारी और दस्तावेजीकरण की सभी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन। यह आपके पॉलिसी लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।

_____। ACH/SI रिन्यूअल विकल्प चुनना चाहते हैं।

खजूर: _____

दस्तावेज देखिं ऑफ प्रोपोजर: _____

स्थान: _____

पीआर का नाम ओपोजर: _____

निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; पंजीकृत कार्यालय: - सी-98, पहली मंजिल, लाजपत नगर, भाग 1, नई दिल्ली -110024

अस्वीकरण: बीमा याचना का विषय है। निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे पहले मैक्स बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (आईआरडीआई पंजीकरण संख्या 145)। 'बूपा' और 'हार्टबीट' लोगो उनके संबंधित स्वामियों के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं और लाइसेंस के तहत निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। ग्राहक हेल्पलाइन: 1860-500-8888 वेबसाइट: www.nivabupa.com। सीआईएन: 6000DL2008PLC182918। नियम और शर्तों, बहिष्करण, जोखिम कारकों, प्रतीक्षा अवधि और लाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री समाप्त करने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें।

कंपनी द्वारा स्वीकृत

आवेदन सं. _____

खजूर _____

हम आपके प्रस्ताव की प्राप्ति और चेक/डिमांड ड्राफ्ट/अन्य द्वारा राशि _____ को आहरित _____ दिनांक _____ रुपये की राशि के _____ को धन्यवाद देते हैं। न तो बीमा के लिए एक पूर्ण प्रस्ताव के लिए हमें प्रस्तुत करना और न ही पॉलिसी जारी करने के लिए किया गया कोई भुगतान हमें पॉलिसी जारी करने के लिए सहमत होने के लिए बाध्य करता है, जो निर्णय हमेशा हमारे एकमात्र और पूर्ण विवेक में होगा। यदि हम बीमा के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, तो यह पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन होगा और यदि प्रीमियम हमें पूर्ण और समय पर प्राप्त नहीं होता है या वसूल नहीं होता है तो हमारी कोई देयता नहीं होगी। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम आपको सूचित करेंगे और बिना ब्याज के आपसे प्राप्त चिकित्सा परीक्षणों की लागत, यदि कोई हो, काटने के बाद भुगतान वापस कर देंगे।

रिसीवर और कार्यालय मुहर के हस्ताक्षर